

Heb

Chapter 10

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν
छाया क्योंकि रखने-वाली - व्यवस्था -की आने-वाली भलाइयों, नहीं स्वयं -की
[G4639](#) [G1063](#) [G2192](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#) [G3195](#) [G0018](#) [G3756](#) [G0846](#) [G3588](#)
- εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις, ἃς
छवि -की बातों, -के-अनुसार वर्ष -से वही बलिदानों, जो
[G1504](#) [G3588](#) [G4229](#) [G2596](#) [G1763](#) [G3588](#) [G0846](#) [G2378](#) [G3739](#)
- προσφέρουσιν εἰς τὸ διηγεκές, οὐδέποτε δύνатаι τοὺς προσερχομένου
चढ़ाते-हैं -के-लिए -के सदा, कभी-नहीं समर्थ-है -को आने-वालों
[G4374](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1336](#) [G3763](#) [G1410](#) [G3588](#) [G4334](#)
- τελειῶσαι.
सिद्ध-करने।
[G5048](#)

व्यवस्था का विधान तो आने वाली उत्तम बातों की छाया मात्र प्रदान करता है। अपने आप में वे बातें यथार्थ नहीं हैं। इसलिए उन्हीं बलियों के द्वारा जिन्हें निरन्तर प्रति वर्ष अनन्त रूप से दिया जाता रहता है, उपासना के लिए निकट आने वालों को सदा-सदा के लिए सम्पूर्ण सिद्ध नहीं किया जा सकता।

- 2 Ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι
क्योंकि नहीं - बंद-हो-जातीं चढ़ाई-जाती, -के-कारण -के कोई रखने और
[G1893](#) [G3756](#) [G0302](#) [G3973](#) [G4374](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3367](#) [G2192](#) [G2089](#)
- συνείδησιν ἁμαρτιῶν, τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους?
विवेक पापों, -को उपासना-करने-वालों एक-बार शुद्ध-किए-गए?
[G4893](#) [G0266](#) [G3588](#) [G3000](#) [G0530](#) [G2511](#)

यदि ऐसा हो पाता तो क्या उनका चढ़ाया जाना बंद नहीं हो जाता? क्योंकि फिर तो उपासना करने वाले एक ही बार में सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाते। और अपने पापों के लिए फिर कभी स्वयं को अपराधी नहीं समझते।

- 3 Ἄλλ' ἐν αὐταῖς, ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν.
परन्तु -में उनमें, स्मरण पापों -के-अनुसार वर्ष।
[G0235](#) [G1722](#) [G0846](#) [G0364](#) [G0266](#) [G2596](#) [G1763](#)

किन्तु वे बलियाँ तो बस पापों की एक वार्षिक स्मृति मात्र हैं।

- 4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα τὰύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.
असम्भव क्योंकि लहू साँड़ों और बकरों हटाने पाप।
[G0102](#) [G1063](#) [G0129](#) [G5022](#) [G2532](#) [G5131](#) [G0851](#) [G0266](#)

क्योंकि साँड़ों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे, यह सम्भव नहीं है।

- 5 Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον, λέγει, Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ
इसलिये प्रवेश-करते-हुए -में -के संसार, कहता-है, बलिदान और भेंट नहीं
[G1352](#) [G1525](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2889](#) [G3004](#) [G2378](#) [G2532](#) [G4376](#) [G3756](#)
- ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι.
चाहा, शरीर परन्तु तैयार-किया मेरे-लिए।
[G2309](#) [G4983](#) [G1161](#) [G2675](#) [G1473](#)

इसलिए जब यीशु इस जगत में आया था तो उसने कहा था: “तूने बलिदान और कोई भेंट नहीं चाहा, किन्तु मेरे लिए एक देह तैयार की है।

6 ὀλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας.
 होमबलि और -के-लिए पाप नहीं प्रसन्न-हुआ।
[G3646](#) [G2532](#) [G4012](#) [G0266](#) [G3756](#) [G2106](#)

| तू किसी होमबलि से न ही पापबलि से प्रसन्न नहीं हुआ

7 τότε εἶπον, Ἴδοὺ, ἦκω -- ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ --
 तब कहा, देखो, आता-हूँ-- -में शीर्षक पुस्तक लिखा-गया-है -के-विषय-में मेरे--
[G5119](#) [G3004](#) [G3708](#) [G2240](#) [G1722](#) [G2777](#) [G0975](#) [G1125](#) [G4012](#) [G1473](#)

τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου.
 -के करने, हे परमेश्वर, -को इच्छा तेरी।
[G3588](#) [G4160](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2307](#) [G4771](#)

| तब फिर मैंने कहा था, 'और पुस्तक में मेरे लिए यह भी लिखा है, मैं यहाँ हूँ। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने को आया हूँ।''

8 ἀνώτερον λέγων, ὅτι Θυσίας, καὶ προσφορὰς, καὶ ὀλοκαυτώματα, καὶ
 ऊपर कहते-हुए, कि बलिदान, और भेंट, और होमबलि, और
[G0511](#) [G3004](#) [G3754](#) [G2378](#) [G2532](#) [G4376](#) [G2532](#) [G3646](#) [G2532](#)

περὶ ἁμαρτίας, οὐκ ἠθέλησας; οὐδὲ εὐδόκησας -- αἵτινες κατὰ νόμον;
 -के-लिए पाप, नहीं चाहा; न-ही प्रसन्न-हुआ-- जो -के-अनुसार व्यवस्था;
[G4012](#) [G0266](#) [G3756](#) [G2309](#) [G3761](#) [G2106](#) [G3748](#) [G2596](#) [G3551](#)

προσφέρονται
 चढ़ाए-जाते-हैं
[G4374](#)

| उसने पहले कहा था, "बलियाँ और भेंटें, होमबलियाँ और पापबलियाँ न तो तू चाहता है और न ही तू उनसे प्रसन्न होता है।" (यद्यपि व्यवस्था का विधान यह चाहता है कि वे चढ़ाई जाएँ।)

9 τότε εἶρηκεν, Ἴδοὺ, ἦκω, τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ
 तब कहा, देखो, आता-हूँ, -के करने -को इच्छा तेरी। हटाता-है -को
[G5119](#) [G2046](#) [G3708](#) [G2240](#) [G3588](#) [G4160](#) [G3588](#) [G2307](#) [G4771](#) [G0337](#) [G3588](#)

πρῶτον, ἵνα τὸ δεῦτερον στήσῃ;
 पहले, ताकि -को दूसरे स्थापित-करे;
[G4413](#) [G2443](#) [G3588](#) [G1208](#) [G2476](#)

| तब उसने कहा था, "मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ।" तो वह दूसरी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, पहली को रद्द कर देता है।

10 ἐν ᾧ θελήματι, ἡγιασμένοι ἐσμέν, διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος
 -में जिस इच्छा, पवित्र-किए-गए हैं, -के-द्वारा -की भेंट -के शरीर
[G1722](#) [G3739](#) [G2307](#) [G0037](#) [G1510](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4376](#) [G3588](#) [G4983](#)

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ.
 यीशु ख्रिस्तोस एक-बार।
[G2424](#) [G5547](#) [G2178](#)

| सो परमेश्वर की इच्छा से एक बार ही सदा-सर्वदा के लिए यीशु मसीह की देह के बलिदान द्वारा हम पवित्र कर दिए गए।

11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἔστηκεν καθ' ἡμέραν λειτουργῶν, καὶ τὰς αὐτὰς
 और प्रत्येक तो याजक खड़ा-रहता-है -के-अनुसार दिन सेवा-करते-हुए, और -को वही
[G2532](#) [G3956](#) [G3303](#) [G2409](#) [G2476](#) [G2596](#) [G2250](#) [G3008](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0846](#)

πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας.
 बहुधा चढ़ाने-वाला बलिदान, जो कभी-नहीं समर्थ-हैं हटाने पाप।
[G4178](#) [G4374](#) [G2378](#) [G3748](#) [G3763](#) [G1410](#) [G4014](#) [G0266](#)

| हर याजक एक दिन के बाद दूसरे दिन खड़ा होकर अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। वह पुनः-पुनः एक जैसी ही बलियाँ चढ़ाता है जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकती।

12 οὗτος δὲ, μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς,
यह परन्तु, एक -के-लिए पापों चढ़ाकर बलिदान -के-लिए -के सदा,
[G3778](#) [G1161](#) [G1520](#) [G5228](#) [G0266](#) [G4374](#) [G2378](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1336](#)

ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ;
बैठा -में दाहिने -के परमेश्वर;
[G2523](#) [G1722](#) [G1188](#) [G3588](#) [G2316](#)

किन्तु याजक के रूप में मसीह तो पापों के लिए, सदा के लिए एक ही बलि चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा,

13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν
-के बाकी प्रतीक्षा-करते-हुए -तक रखे-जाएं जो शत्रु उसके पाद-पीठ -के
[G3588](#) [G3063](#) [G1551](#) [G2193](#) [G5087](#) [G3588](#) [G2190](#) [G0846](#) [G5286](#) [G3588](#)

ποδῶν αὐτοῦ.
पैरों उसके।
[G4228](#) [G0846](#)

और उसी समय से उसे अपने विरोधियों को उसके चरण की चौकी बना दिए जाने की प्रतीक्षा है।

14 μὲν γὰρ προσφορᾷ, τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς, τοῦς ἁγιαζομένους.
एक क्योंकि भेंट, सिद्ध-किया-है -के-लिए -के सदा, -को पवित्र-किए-जाने-वालों।
[G1520](#) [G1063](#) [G4376](#) [G5048](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1336](#) [G3588](#) [G0037](#)

क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा, जो पवित्र किए जा रहे हैं, उन्हें सदा-सर्वदा के लिए सम्पूर्ण सिद्ध कर दिया।

15 Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον; μετὰ γὰρ τὸ
गवाही-देता-है परन्तु हमें भी - आत्मा - पवित्र; -के-बाद क्योंकि -के
[G3140](#) [G1161](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3588](#) [G0040](#) [G3326](#) [G1063](#) [G3588](#)

εἰρηκέναι,
कहने,
[G2046](#)

इसके लिए पवित्र आत्मा भी हमें साक्षी देता है। पहले वह बताता है:

16 Αὕτη ἡ διαθήκη ἦν διαθήσομαι πρὸς αὐτούς, μετὰ τὰς ἡμέρας
यह - वाचा जो बांधूंगा -के-साथ उनसे, -के-बाद -के दिनों
[G3778](#) [G3588](#) [G1242](#) [G3739](#) [G1303](#) [G4314](#) [G0846](#) [G3326](#) [G3588](#) [G2250](#)

ἐκεῖνας, λέγει Κύριος: διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ
उन, कहता-है प्रभु: देते-हुए व्यवस्थाएं मेरी -पर हृदयों उनके, और -पर
[G1565](#) [G3004](#) [G2962](#) [G1325](#) [G3551](#) [G1473](#) [G1909](#) [G2588](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1909](#)

τὴν διάνοιαν αὐτῶν, ἐπιγράψω αὐτούς;
-की मन उनके, लिखूंगा उन्हें;
[G3588](#) [G1271](#) [G0846](#) [G1924](#) [G0846](#)

“यह वह वाचा है जिसे मैं उनसे करूँगा। और फिर उसके बाद प्रभु घोषित करता है। अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में बसाऊँगा। मैं उनके मनों पर उनको लिख दूँगा।”

17 καὶ, τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, οὐ μὴ
और, -के पापों उनके, और -के अधर्मों उनके, नहीं कदापि
[G2532](#) [G3588](#) [G0266](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0458](#) [G0846](#) [G3756](#) [G3361](#)

μνησθήσομαι ἔτι.
याद-करूँगा और।
[G3403](#) [G2089](#)

वह यह भी कहता है: “उनके पापों और उनके दुष्कर्मों को और अब मैं कभी याद नहीं रखूँगा।”

18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορά περὶ ἁμαρτίας.
जहां परन्तु क्षमा इनकी, अब-नहीं भेंट -के-लिए पाप।
[G3699](#) [G1161](#) [G0859](#) [G3778](#) [G3765](#) [G4376](#) [G4012](#) [G0266](#)

| और फिर जब पाप क्षमा कर दिए गए तो पापों के लिए किसी बलि की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती।

19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων, ἐν
रखते-हुए अतः, भाइयो, साहस -के-लिए -की प्रवेश -के पवित्र-स्थानों, -में
[G2192](#) [G3767](#) [G0080](#) [G3954](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1529](#) [G3588](#) [G0040](#) [G1722](#)

τῷ αἵματι Ἰησοῦ,
-के लहू यीशु,
[G3588](#) [G0129](#) [G2424](#)

| इसलिए भाईयों, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है,

20 ἦν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον, καὶ ζῶσαν, διὰ τοῦ
जो उद्घाटन-की हमारे-लिए मार्ग नया, और जीवित, -के-द्वारा -के
[G3739](#) [G1457](#) [G1473](#) [G3598](#) [G4372](#) [G2532](#) [G2198](#) [G1223](#) [G3588](#)

καταπετάσματος, τοῦτ' ἔστιν, τῆς σαρκὸς αὐτοῦ;
परदे, यह-है है, -के शरीर उसके;
[G2665](#) [G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4561](#) [G0846](#)

| जिसे उसने परदे के द्वारा, अर्थात् जो उसका शरीर ही है, एक नए और सजीव मार्ग के माध्यम से हमारे लिए खोल दिया है।

21 καὶ ἱερέα μέγαν, ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ,
और याजक महान, -पर -के घर -के परमेश्वर,
[G2532](#) [G2409](#) [G3173](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3624](#) [G3588](#) [G2316](#)

| और क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घराने का अधिकारी है।

22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας, ἐν πληροφορίᾳ πίστεως; ῥεραντισμένοι
निकट-आएं -के-साथ सच्चे हृदय, -में पूर्ण-निश्चय विश्वास; छिड़के-हुए
[G4334](#) [G3326](#) [G0228](#) [G2588](#) [G1722](#) [G4136](#) [G4102](#) [G4472](#)

τὰς καρδίας, ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς; καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα, ὕδατι
-के हृदयों, -से विवेक बुरी; और धोए-हुए -का शरीर, पानी
[G3588](#) [G2588](#) [G0575](#) [G4893](#) [G4190](#) [G2532](#) [G3068](#) [G3588](#) [G4983](#) [G5204](#)

καθαρῶ.

शुद्ध।

[G2513](#)

| तो फिर आओ, हम सच्चे हृदय, निश्चयपूर्ण विश्वास अपनी अपराधपूर्ण चेतना से हमें शुद्ध करने के लिए किए गए छिड़काव से युक्त अपने हृदयों को लेकर शुद्ध जल से धोए हुए अपने शरीरों के साथ परमेश्वर के निकट पहुँचते हैं।

23 κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος, ἀκλινη; πιστὸς γὰρ ὁ
थामे-रहें -को अंगीकार -की आशा, अडिग; विश्वसनीय क्योंकि -
[G2722](#) [G3588](#) [G3671](#) [G3588](#) [G1680](#) [G0186](#) [G4103](#) [G1063](#) [G3588](#)

ἐπαγγελιάμενος;

प्रतिज्ञा-करने-वाला;

[G1861](#)

| तो आओ जिस आशा को हमने अंगीकार किया है, हम अडिग भाव से उस पर डटे रहें क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है, वह विश्वासपूर्ण है।

24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους, εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων;
और ध्यान-दें एक-दूसरे, -के-लिए उकसाने प्रेम और भले कार्यों;
[G2532](#) [G2657](#) [G0240](#) [G1519](#) [G3948](#) [G0026](#) [G2532](#) [G2570](#) [G2041](#)

| तथा आओ, हम ध्यान रखें कि हम प्रेम और अच्छे कर्मों के प्रति एक दूसरे को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं।

25 μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν; ἀλλὰ
 नहीं छोड़ते-हुए -को इकट्ठा-होना अपना, जैसे रीति किन्हीं; परन्तु
[G3361](#) [G1459](#) [G3588](#) [G1997](#) [G1438](#) [G2531](#) [G1485](#) [G5100](#) [G0235](#)

παρακαλοῦντες, καὶ τοσοῦτω μᾶλλον, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσιν τὴν ἡμέραν.
 प्रोत्साहित-करते-हुए, और उतना अधिक, जितना देखते-हो निकट-आती-हुई -को दिन।
[G3870](#) [G2532](#) [G5118](#) [G3123](#) [G3745](#) [G0991](#) [G1448](#) [G3588](#) [G2250](#)

हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो। जैसी कि कुछों को तो वहाँ नहीं आने की आदत ही पड़ गयी है। बल्कि हमें तो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो-कि वह दिन निकट आ रहा है। सो तुम्हें तो यह और अधिक करना चाहिए।

26 Ἐκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν, μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς
 स्वेच्छा-से क्योंकि पाप-करने-वालों हमारे, -के-बाद -के पाने -को पूर्ण-ज्ञान -की
[G1596](#) [G1063](#) [G0264](#) [G1473](#) [G3326](#) [G3588](#) [G2983](#) [G3588](#) [G1922](#) [G3588](#)

ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,
 सच्चाई, अब-नहीं -के-लिए पापों बचती-है बलिदान,
[G0225](#) [G3765](#) [G4012](#) [G0266](#) [G0620](#) [G2378](#)

सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद भी यदि हम जानबूझ कर पाप करते ही रहते हैं फिर तो पापों के लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं रहता।

27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχή κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοῦς
 भयानक परन्तु कोई प्रतीक्षा न्याय, और आग जलन खाने जाने-वाली -को
[G5398](#) [G1161](#) [G5100](#) [G1561](#) [G2920](#) [G2532](#) [G4442](#) [G2205](#) [G2068](#) [G3195](#) [G3588](#)

ὑπεναντίους.
 विरोधियों।
[G5227](#)

बल्कि फिर तो न्याय की भयानक प्रतीक्षा और भीषण अग्नि ही शेष रह जाती है जो परमेश्वर के विरोधियों को चट कर जाएगी।

28 ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως, χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν
 अस्वीकार-करने-वाला कोई व्यवस्था मूसा, बिना दया -पर दो या तीन
[G0114](#) [G5100](#) [G3551](#) [G3475](#) [G5565](#) [G3628](#) [G1909](#) [G1417](#) [G2228](#) [G5140](#)

μάρτυσιν, ἀποθνήσκει.
 गवाहों, मरता-है।
[G3144](#) [G0599](#)

जो कोई मूसा की व्यवस्था के विधान का पालन करने से मना करता है, उसे बिना दया दिखाए दो या तीन साक्षियों की साक्षी पर मार डाला जाता है।

29 πόσω δοκεῖτε χείρονος, ἀξιωθήσεται τιμωρίας, ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ
 कितने सोचते-हो बुरे, योग्य-ठहराया-जाएगा दंड, जो -के पुत्र -के परमेश्वर
[G4214](#) [G1380](#) [G5501](#) [G0515](#) [G5098](#) [G3588](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G2316](#)

καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ
 कुचलने-वाला, और -के लहू -की वाचा साधारण समझने-वाला, -में जिस
[G2662](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0129](#) [G3588](#) [G1242](#) [G2839](#) [G2233](#) [G1722](#) [G3739](#)

ἠγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας!
 पवित्र-किया-गया, और -के आत्मा -की अनुग्रह अपमान-करने-वाला!
[G0037](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3588](#) [G5485](#) [G1796](#)

सोचो, वह मनुष्य कितने अधिक कड़े दण्ड का पात्र है, जिसने अपने पैरों तले परमेश्वर के पुत्र को कुचला, जिसने वाचा के उस लहू को, जिसने उसे पवित्र किया था, एक अपवित्र वस्तु माना और जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया।

30 οἶδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, Ἴεμοι ἐκδίκησις; ἐγὼ ἀνταποδώσω, καὶ πάλιν,
 जानते-हैं क्योंकि -को कहने-वाले, मेरा बदला; मैं प्रतिफल-दूंगा, और फिर,
[G1492](#) [G1063](#) [G3588](#) [G3004](#) [G1473](#) [G1557](#) [G1473](#) [G0467](#) [G2532](#) [G3825](#)

Κρινεῖ Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ.
 न्याय-करेगा प्रभु -के लोगों अपने।
[G2919](#) [G2962](#) [G3588](#) [G2992](#) [G0846](#)

क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा था: “बदला लेना काम है मेरा, मैं ही बदला लूँगा।” और फिर, “प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा।”

31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος.
 भयानक -का गिरना -में हाथों परमेश्वर जीवित।
[G5398](#) [G3588](#) [G1706](#) [G1519](#) [G5495](#) [G2316](#) [G2198](#)

किसी पापी का सजीव परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना एक भयानक बात है।

32 Ἐναμυνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας ἐν αἷς, φωτισθέντες, πολλὴν
 याद-करो परन्तु -के पहले दिनों -में जिन, प्रकाशित-होकर, बहुत
[G0363](#) [G1161](#) [G3588](#) [G4386](#) [G2250](#) [G1722](#) [G3739](#) [G5461](#) [G4183](#)

ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων;
 संघर्ष सहा दुखों;
[G0119](#) [G5278](#) [G3804](#)

आरम्भ के उन दिनों को याद करो जब तुमने प्रकाश पाया था, और उसके बाद जब तुम कष्टों का सामना करते हुए कठोर संघर्ष में दृढ़ता के साथ डटे रहे थे।

33 τοῦτο μὲν, ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι; τοῦτο δὲ, κοινωνοὶ
 यह तो, निन्दाओं -और और क्लेशों तमाशा-बने-हुए; यह परन्तु, सहभागी
[G3778](#) [G3303](#) [G3680](#) [G5037](#) [G2532](#) [G2347](#) [G2301](#) [G3778](#) [G1161](#) [G2844](#)

τῶν οὕτως ἀναστρεφόμενων γενηθέντες.
 -के इस-प्रकार जीने-वालों बनकर।
[G3588](#) [G3779](#) [G0390](#) [G1096](#)

तब कभी तो सब लोगों के सामने तुम्हें अपमानित किया गया और सताया गया और कभी जिनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था, तुमने उनका साथ दिया।

34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἄρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων
 और क्योंकि -के-साथ बंदियों सह-दुख-उठाया, और -को लूट -की संपत्तियों
[G2532](#) [G1063](#) [G3588](#) [G1198](#) [G4834](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0724](#) [G3588](#) [G5225](#)

ὑμῶν, μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὑπαρξιν,
 तुम्हारी, -के-साथ आनन्द स्वीकार-किया, जानते-हुए रखना अपने-आपको उत्तम संपत्ति,
[G4771](#) [G3326](#) [G5479](#) [G4327](#) [G1097](#) [G2192](#) [G1438](#) [G2909](#) [G5223](#)

καὶ μένουσαν.
 और स्थिर।
[G2532](#) [G3306](#)

तुमने, जो बंदीगृह में पड़े थे, उनसे सहानुभूति की तथा अपनी सम्पत्ति का जब्त किया जाना सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि तुम यह जानते थे कि स्वयं तुम्हारे अपने पास उनसे अच्छी और टिकाऊ सम्पत्तियाँ हैं।

35 Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην
 नहीं फेंक-दो अतः -को साहस तुम्हारे, जिसका रखती-है बड़ा
[G3361](#) [G0577](#) [G3767](#) [G3588](#) [G3954](#) [G4771](#) [G3748](#) [G2192](#) [G3173](#)

μισθαποδοσίαν.
 प्रतिफल।
[G3405](#)

सो अपने निडर विश्वास को मत त्यागो क्योंकि इसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा।

36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρεῖαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες,
धीरज क्योंकि रखते-हो आवश्यकता, ताकि -को इच्छा -के परमेश्वर करके,
[G5281](#) [G1063](#) [G2192](#) [G5532](#) [G2443](#) [G3588](#) [G2307](#) [G3588](#) [G2316](#) [G4160](#)

κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.
पाओ -को प्रतिज्ञा।
[G2865](#) [G3588](#) [G1860](#)

| तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुको तो जिसका वचन उसने दिया है, उसे तुम पा सको।

37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὃ ἐρχόμενος ἴξει, καὶ οὐ χρονίσει.
अभी क्योंकि थोड़ा कितना कितना, जो आने-वाला आएगा, और नहीं देरी-करेगा।
[G2089](#) [G1063](#) [G3398](#) [G3745](#) [G3745](#) [G3588](#) [G2064](#) [G2240](#) [G2532](#) [G3756](#) [G5549](#)

| क्योंकि बहुत शीघ्र ही, "जिसको आना है वह शीघ्र ही आएगा,

38 ὁ δὲ δίκαιός μου, ἐκ πίστεως ζήσεται; καὶ ἐὰν ὑποστειλήται, οὐκ
जो परन्तु धर्मी मेरा, -से विश्वास जीएगा; और यदि पीछे-हटे, नहीं
[G3588](#) [G1161](#) [G1342](#) [G1473](#) [G1537](#) [G4102](#) [G2198](#) [G2532](#) [G1437](#) [G5288](#) [G3756](#)

εὐδοκεῖ ἢ ψυχὴ μου ἐν αὐτῷ.
प्रसन्न-होती-है - प्राण मेरी -में उसमें।
[G2106](#) [G3588](#) [G5590](#) [G1473](#) [G1722](#) [G0846](#)

| मेरा धर्मी जन विश्वास से जियेगा और यदि वह पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न न रहूँगा।"

39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολής εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς
हम परन्तु नहीं हैं पीछे-हटने -के-लिए विनाश, परन्तु विश्वास -के-लिए
[G1473](#) [G1161](#) [G3756](#) [G1510](#) [G5289](#) [G1519](#) [G0684](#) [G0235](#) [G4102](#) [G1519](#)

περιποίησιν ψυχῆς.
प्राप्ति प्राण।
[G4047](#) [G5590](#)

| किन्तु हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हटते हैं और नष्ट हो जाते हैं बल्कि उनमें से हैं जो विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं।